

@Shajahanpurpol

प्रेस नोट: सराहनीय कार्य 24.09.2021

थाना गढिया रंगीन पुलिस को मिली बड़ी सफलता,

गोली लगी अवस्था में युवक युवती का शव मिलने की घटना का किया सफल अनावरण

***वास्तविक तथ्यों के आधार पर 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया व अभियुक्त की निशादेही पर**

घटना में प्रयुक्त तमन्चा मय खोखा कारतूस 315 बोर बरामद।*

दिनांक 17.09.21 को थाना गढिया रंगीन क्षेत्र के ग्राम नरौत्तम में युवक- युवती का गोली लगी अवस्था में शव बरामद किये गये थे। सूचना पर तत्काल पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर मय अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा मौके पर पहुँचकर घटनास्थल का निरीक्षण कर मौके पर गहनता से उपलब्ध साक्ष्यों का संकलन किया गया तथा श्री एस. आनन्द. पुलिस अधीक्षक जनपद शाहजहाँपुर द्वारा श्री संजीव कुमार बाजपेयी, आपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण एवं श्री परमानन्द पाण्डेय, क्षेत्राधिकारी तिलहर के निर्देशन में पुलिस टीम गठित कर घटना का कारणों की जानकारी कर अपराध में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तार हेतु कड़े निर्देश दिये गये।

दिनांक 17.09.21 को इस सम्बन्ध में थाना पर मृतका के पिता श्री किशनपाल सिंह उर्फ बाबा पुत्र जोगेन्द्र सिंह निवासी ग्राम नौगवां नरौत्तम थाना गढिया रंगीन जनपद शाहजहाँपुर द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 349/2021 धारा 452/302 IPC का अभियोग बनाम मृतक आशीष सिंह पुत्र सुखपाल सिंह निवासी ग्राम नौगवां नरौत्तम थाना गढिया रंगीन जनपद शाहजहाँपुर के पर्जीकृत किया गया तथा मृतक आशीष के पिता श्री सुखपाल सिंह पुत्र बृजपाल सिंह निवासी ग्राम नौगवां नरौत्तम थाना गढिया रंगीन जनपद शाहजहाँपुर द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 350/2021 धारा 147/148/149/302 IPC बनाम 1. किशनपाल सिंह 2. अमन 3. पवन 4. सुरेश पूर्व प्रधान 5. नरवीर सिंह निवासी गणग्राम नौगवां नरौत्तम के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

इसी क्रम में थानाध्यक्ष सुन्दरलाल वर्मा द्वारा विवेचना के मध्य संकलित साक्ष्यों व वैज्ञानिक तथ्यों व इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से घटना का सफल अनावरण करते हुए वास्तिक तथ्यों के आधार पर मृतका के पिता किशनपाल सिंह उर्फ बाबा को ग्राम नौगवां नरौत्तम से आज दिनांक 24.09.21 को गिरफ्तार किया गया तथा उसकी निशादेही पर मृतक आशीष सिंह द्वारा घटना में प्रयुक्त तमन्चा 315 बोर मय नाल में फंसा खोका कारतूस 315 बोर व अभियुक्त किशनपाल सिंह उर्फ बाबा द्वारा मृतक आशीष सिंह की लाश को अपने घर से गाव के बाहर फेंकने जाते समय पहना गया रक्तरंजीत कुर्ता खेत में बने भूसे के बोंगा से बरामद किया गया। इस सम्बन्ध में मृतका के पिता किशनपाल सिंह उर्फ बाबा द्वारा अपने तथा अपने परिवार के बचाव पक्ष में वास्तविक तथ्यों को छुपाकर घटना स्थल में फेर बदल करने व मृतक आशीष की लाश को मौके से हटाकर दूसरे स्थान पर फेंक कर महत्वपूर्ण व वास्तविक साक्ष्य का विलोपन कर मिथ्या साक्ष्य गढ़ना पाये जाने पर उसके विरुद्ध धारा 193/201 IPC की वृद्धि की गयी। बरामद रक्तरंजित कुर्ता व तमन्चे को वास्ते परिक्षण FSL लखनऊ भेजा जा रहा है। इस सम्बन्ध में अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण :-

1. किशनपाल सिंह उर्फ बाबा पुत्र जोगेन्द्र निवासी ग्राम नौगवां नरौत्तम थाना गढिया रंगीन जनपद शाहजहाँपुर

पंजीकृत अभियोगों का विवरण:-

1. मु0अ0सं0 349/2021 धारा 193/201 IPC थाना गढिया रंगीन जनपद शाहजहाँपुर

बरामदगी का विवरण:-

1. मृतक आशीष द्वारा दोनो घटनाओं में प्रयुक्त तमन्चा 315 बोर मय नाल में फंसा खोका कारतूस 315 बोर के अभियुक्त किशनपाल सिंह उर्फ बाबा की निशादेही पर बरामद।

2. अभियुक्त किशनपाल द्वारा मृतक आशीष की लाश को अपने घर से गाव के बाहर फेंकने जाते समय पहना गया रक्तरंजीत कुर्ता अभियुक्त की निशादेही पर बरामद।

पूछताछ विवरण:- अभियुक्त किशनपाल सिंह उर्फ बाबा पुत्र जोगेन्द्र सिंह ने बताया कि उनकी पुत्री कु0 बन्टी सिंह व गाँव के ही लड़के आशीष सिंह पुत्र सुखपाल सिंह जो कि एक ही जाति के थे के मध्य पिछले लगभग 05-06 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था आशीष सिंह शादीशुदा होने के बावजूद भी मेरी लड़की कु0 बन्टी सिंह को अपने साथ ले जाना चाहता था। इसी के चलते दिनांक 16/17.09.2021 की रात्रि में वह मेरे घर में आ गया और उसने मेरी लड़की से अपने साथ चलने के लिए कहा मेरी लड़की कु0 बन्टी के इन्कार कर देने से आशीष सिंह द्वारा पहले मेरी लड़की कु0 बन्टी की गोली मारकर मृत्यु कर दी गयी तथा उसके बाद आशीष सिंह ने उसी तमन्चे से खुद को गोली मार कर आत्महत्या कर ली थी। मैंने जब दोनो की लाश को अपने घर में देखा तो मैं डर गया कि इस मामले में मैं तथा मेरा परिवार फंस जायेगा तब मैंने

बिना किसी को बताये आशीष की लाश को अपने घर से हटाकर ब्रह्मदेव थान के पास डाल दिया था तथा उस तमन्चे को भी मौके से हटाकर छुपा दिया था तथा उस दिन पहने कुर्ते को भी खून लग जाने के कारण तमन्चे के साथ उसे भी छिपा दिया था। मैंने आशीष सिंह व अपनी लडकी की हत्या नहीं की है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष सुन्दरलाल वर्मा थाना गढिया रंगीन जनपद शाहजहाँपुर
2. उ०नि० श्री पूरनराम आर्या थाना गढिया रंगीन जनपद शाहजहाँपुर
3. उ०नि० श्री घनश्याम बहादुर थाना गढिया रंगीन जनपद शाहजहाँपुर
4. है०का० 282 मौ० याकूब थाना गढिया रंगीन जनपद शाहजहाँपुर
5. का० 1826 गौरव शर्मा थाना गढिया रंगीन जनपद शाहजहाँपुर
6. का० 414 पूरनपाल थाना गढिया रंगीन जनपद शाहजहाँपुर